

**January 21, 2021**

**The Secretary**

**Bombay Stock Exchange Limited**

Corporate Relationship Department  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Mumbai-400 001

**The Secretary**

**National Stock Exchange of India Ltd**

Exchange Plaza  
5<sup>th</sup> Floor, Plot no C/1, G Block  
Bandra Kurla Complex  
Bandra (East)  
Mumbai 400 051.

**Subject: Newspaper publication – Board meeting intimation**

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the "Notice of Board meeting intimation" in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)


Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take this on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,

For **Coforge Limited** (Erstwhile NIIT Technologies Limited)



**Lalit Kumar Sharma**  
**Company Secretary & Legal Counsel**

Encl: as above

**PUBLIC ANNOUNCEMENT**  
(This is a public announcement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an Offer Document)



**URJA GLOBAL LIMITED**

Our Company was incorporated under the Companies Act, 1956 in New Delhi as "Commitment Capital Services Private Limited" on May 29, 1992 vide Certificate of Incorporation issued by the Additional Registrar of Companies, Delhi & Haryana. Subsequently, our Company passed special resolution on October 29, 1993 and converted from private limited to public limited pursuant to fresh certificate of incorporation dated November 11, 1993 issued by Additional Registrar of Companies, Delhi & Haryana. Further, name of our Company was changed to Urja Global Limited pursuant to fresh certificate of incorporation dated August 27, 2009 issued by Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana.

Registered Office : 487/63, 1<sup>st</sup> Floor, National Market, Peeragarhi, New Delhi, Delhi, 110087, India  
Tel. : 011 45588274/75;

Contact Person : Neha Shukla, Company Secretary and Compliance Officer  
E-mail : cs@urjaglobal.in; Website: www.urjaglobal.in  
Corporate Identification Number : L67120DL1992PLC048983

**PROMOTERS OF OUR COMPANY - NANDANVANG COMMERCIAL PRIVATE LIMITED**

**ISSUE OPENS ON**  
**MONDAY, JANUARY 25, 2021**

**\* LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION**  
**FRIDAY, FEBRUARY 05, 2021**

**\* ISSUE CLOSES ON**  
**WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2021**

\* Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renounees on or prior to the Issue Closing Date.  
# Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the issue period as it may determine from time to time, provided that this issue will not remain open in excess of 30 (thirty) days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ISSUE OF UPTO 5,00,00,000 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1/- EACH AT A PRICE OF ₹ 5/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 4/- PER EQUITY SHARE) ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR AN AMOUNT UP TO ₹ 2,500 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF URJA GLOBAL LIMITED ("THE COMPANY" OR "THE ISSUER") IN THE RATIO OF 7 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 71 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. ON JANUARY 15, 2021 (THE "ISSUE"). FOR DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 48 OF THE LETTER OF OFFER.

**PAYMENT METHOD\***

Amount Payable per Rights Equity Share i.e. Issue Price	Face value (₹)	Premium (₹)	Total
On Application	0.25	1.00	1.25
One or more subsequent Call(s) as determined by our Board at its sole discretion, from time to time	0.75	3.00	3.75
<b>Total</b>	<b>1.00</b>	<b>4.00</b>	<b>5.00</b>

\* For details on the payment method, please refer to the chapter titled "Terms of the Issue" on page 48 of the Letter of Offer.

**ASBA\***

Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!  
\*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same.  
For further details read section on ASBA below

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL/2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 (hereinafter referred to as "SEBI Rights Issue Circular") and SEBI circular SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated December 30, 2009, SEBI circular CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and the SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL/2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 (collectively hereinafter referred to as "ASBA Circulars"), all investors desiring to make an Application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details of procedure for application by the resident Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on the Record Date i.e. Friday, January 15, 2021, see "Procedure for Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form" on page 63 of the Letter of Offer.

Further, in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date i.e. Friday, January 15, 2021 and desirous of subscribing to Rights Equity Shares in this issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company, in the manner provided on the website of the Registrar to the issue at [www.alankit.com](http://www.alankit.com) at least two Working Days prior to the Issue Closing Date i.e., Wednesday, February 10, 2021. They may also communicate with the Registrar with the help of the helpline number (+91 11 42541955) and their email address ([urjarights@alankit.com](mailto:urjarights@alankit.com)).

**Facility for Application in the Issue**

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circular and ASBA Circulars, all investors desiring to make an Application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA.

**Procedure for Application through ASBA Process**

Investors desiring to make an Application in this issue through ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form, or have otherwise provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application Form. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecordName=Pjey&intmid=34>. For details on Designated Branches of SCSBs collecting the Application Form, please refer to the above-mentioned link. Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of SEBI Circular No. CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012 within the periods stipulated therein, ASBA Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs, in case of Applications made through ASBA facility.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of SEBI Circular No. CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012 within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI Circular CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, SCSBs should have a separate account in their own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making Application in the issue and clear demarcated funds should be available in such account for Applications. SCSBs applying in the issue shall be responsible for ensuring that they have a separate account in their own name with any other SCSB having clear demarcated funds for applying in the issue and that such separate account shall be used as the ASBA Account for the Application, for ensuring compliance with the applicable regulations.

**Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form:**

Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have opened their demat accounts after the Record Date, shall adhere to following procedure for participating in this Issue:

- The Eligible Equity Shareholders shall send a letter to the Registrar containing the name(s), address, email address, contact details and the details of their demat account along with copy of self-attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by email, post, speed post, courier, or hand delivery so as to reach to the Registrar no later than two Working Days prior to the Issue Closing Date. The Eligible Equity Shareholders are encouraged to send the details by email due to lockdown and restrictions imposed due to current pandemic COVID-19;
- The Registrar shall, after verifying the details of such demat account, transfer the Rights Entitlements of such Eligible Equity Shareholders to their demat accounts at least one day before the Issue Closing Date;
- The Eligible Equity Shareholders can access the Application Form from:
  - the website of the Registrar ([www.alankit.com](http://www.alankit.com));
  - our Company ([www.urjaglobal.in](http://www.urjaglobal.in));
  - the Stock Exchanges ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)).
 Eligible Equity Shareholders can obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e. [www.alankit.com](http://www.alankit.com)) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company (i.e. [www.urjaglobal.in](http://www.urjaglobal.in));
- The Eligible Equity Shareholders shall, on or before the Issue Closing Date, submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

**ALLOTMENT IN DEMATERIALIZED FORM ONLY:** Investors may please note that the Rights Equity Shares in the issue can be allotted only in dematerialized form and to the same depository account in which the Rights Entitlements are held by such Applicant on the issue closing date. In accordance with the SEBI Rights Issue Circular, (a) the Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date; or (b) the Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have not furnished the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, desirous of subscribing to Rights Equity Shares may also apply in this issue during the Issue Period. Such resident Eligible Equity Shareholders must check the procedure for Application by and credit of Rights Equity Shares in "Procedure for Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form" and "Credit and Transfer of Rights Equity Shares in case of Shareholders holding Equity Shares in Physical Form and treatment of such Rights Equity Shares for non-receipt of demat account details in a timely manner" on pages 63 and 75, respectively.

**DISPATCH OF THE ABRIDGED LETTER OF OFFER ("ALOF") AND APPLICATION FORM:** The dispatch of the ALOF and Application Form for the issue was completed on January 19, 2021 by Registrar to the Issue, i.e., Alankit Assignments Limited to the Eligible Equity Shareholders of the Company, whose names appeared in the Register of Members/Beneficial Owners of the Company, on the Record date, i.e., Friday, January 15, 2021 through electronic dispatch to the shareholders who have registered their email ids and through registered post whose email ids are not registered.

**AVAILABILITY OF APPLICATION FORM:** The Registrar has dispatched an Application Form to all Eligible Equity Shareholders as per their Rights Entitlements on the Record Date for the issue through electronic dispatch to the shareholders who have registered their email ids and through registered post whose email ids are not registered. The Renounees and Eligible Equity Shareholders who have not received the Application Form can download the same from the websites of the Registrar ([www.alankit.com](http://www.alankit.com)), the Company ([www.urjaglobal.in](http://www.urjaglobal.in)) and the Stock Exchanges ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)).

**CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN THE DEMAT ACCOUNTS:** Pursuant to provisions of the SEBI ICDR Regulations and in terms of the Letter of Offer, Our Company is in process of credit of Rights Entitlement in the respective Demat account of shareholders under the ISIN INE550C20012

Eligible Equity Shareholders can obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., [www.alankit.com](http://www.alankit.com)) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form). The link for the same shall also be available on the website of our Company (i.e., [www.urjaglobal.in](http://www.urjaglobal.in)).

**APPLICATION ON PLAIN PAPER UNDER ASBA PROCESS:** An Eligible Equity Shareholder who has neither received the Application Form nor is in a position to obtain the Application Form either from our Company, Registrar to the Issue, can make an Application to subscribe to the issue on plain paper through ASBA process. Eligible Equity Shareholders shall submit the plain paper application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block an amount equivalent to the amount payable on the application in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any address outside India.

The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

- Name of our Company, being Urja Global Limited;
  - Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
  - Registered Folio Number/DP and Client ID No.;
  - Number of Equity Shares held as on Record Date;
  - Allotment option/option dematerialised form;
  - Number of Rights Equity Shares entitled to;
  - Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;
  - Number of additional Rights Equity Shares applied for, if any;
  - Total number of Rights Equity Shares applied for;
  - Total amount paid at the rate of ₹ 1.25 per Rights Equity Share;
  - Details of the ASBA Account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSB;
  - In case of NR Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FN/RRO Account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;
  - Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to this issue;
  - Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; and
  - Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB).
- 16) An approval obtained from the RBI, where a successful Application will result in the aggregate shareholding or total voting rights of the Eligible Equity Shareholder (along with persons acting in concert) in our Company, to be 26% or more of the post-issue paid-up equity share capital of our Company. Eligible Equity Shareholders must send a copy of the approval from any regulatory authority, as may be required, or obtained from the RBI to the Registrar [www.alankit.com](http://www.alankit.com) and
- 17) In addition, all such Eligible Equity Shareholders are deemed to have accepted the following:

"I/We understand that neither the Rights Entitlements nor the Rights Equity Shares have been, or will be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"), or any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof (the "United States"), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act.

I/We understand the Rights Equity Shares referred to in this application are being offered and sold (i) in offshore transactions outside the United States in compliance with Regulation S under the US Securities Act ("Regulation S") to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions and (ii) in the United States to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the US Securities Act) ("U.S. QIBs") pursuant to Section 4(a)(2) of the US Securities Act and other exemptions from the registration requirements of the US Securities Act.

I/We understand that the issue is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements in the United States, except in each case to persons in the United States who are U.S. QIBs.

I/We confirm that I am/we are (a) (i) not in the United States and eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws or (ii) a U.S. QIB in the United States, (b) complying with laws of jurisdictions applicable to such person in connection with the issue, and (c) understand that neither the Company, nor the Registrar or any other person acting on behalf of the Company will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who the Company, the Registrar or any other person acting on behalf of the Company have reason to believe is in the United States (other than U.S. QIBs) or is outside of India and the United States and ineligible to participate in this issue under the securities laws of their jurisdiction.

I/We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation. I/We satisfy, and each account for which I/We are acting satisfies, (a) all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of my/our residence, and (b) is eligible to subscribe and is subscribing for the Rights Equity Shares and Rights Entitlements in compliance with applicable securities and other laws of our jurisdiction of residence.

I/We understand and agree that the Rights Entitlements and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulation S, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently may make an Application to subscribe to the issue on plain paper, along with an account payee cheque or demand draft drawn at par, net of bank and postal charges, payable at Mumbai and the investor should send such plain paper Application by registered post directly to the Registrar to the Issue.

In case an investor makes an Application as well as on plain paper, his application is liable to be rejected.

**LAST DATE FOR APPLICATION :** The last date for submission of the duly filled in Application Form is the Issue Closing Date i.e., Wednesday, February 10, 2021. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the provisions of the Articles of Association, and subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date i.e. Monday, January 25, 2021. If the Application together with the amount payable is not blocked with an SCSB on or before the close of banking hours on the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as provided under "Terms of the Issue - Basis of Allotment" on page 69 of the Letter of Offer.

**APPLICANTS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.**

**LISTING:** The existing Equity Shares of our Company are listed on BSE and NSE ("Stock Exchanges"). Our Company has received "In-Principle" approvals from the BSE and NSE for listing the Rights Equity Shares to be allotted pursuant to this issue vide their letters dated December 28, 2020 and November 04, 2020 respectively. For the purpose of this issue, the Designated Stock Exchange is BSE.

**DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in anyway be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" on page 46 of the Letter of Offer.

**DISCLAIMER CLAUSE OF NSE:** It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of NSE" on page 46 of the Letter of Offer.

**AVAILABILITY OF THE LETTER OF OFFER :** A copy of the Letter of Offer can be downloaded from the website of (a) our Company at [www.urjaglobal.in](http://www.urjaglobal.in); (b) the Registrar to the Issue at [www.alankit.com](http://www.alankit.com); and (c) SEBI and the Stock Exchanges at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

**NOTICE TO OVERSEAS SHAREHOLDERS:** No action has been or will be taken to permit the issue in any jurisdiction where action would be required for that purpose, except in India. Accordingly, the Rights Entitlements or Rights Equity Shares may not be offered or sold, directly or indirectly, and the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer or any offering materials or advertisements in connection with the issue may not be distributed, in whole or in part, in any jurisdiction, except in accordance with legal requirements applicable in such jurisdiction. Receipt of the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer will not constitute an offer in those jurisdictions in which it would be illegal to make such an offer ("Restricted Jurisdictions") and, in those circumstances, the Letter of Offer and the Abridged Letter of Offer must be treated as sent for information purposes only and should not be acted upon for subscription to the Rights Equity Shares and should not be copied or redistributed. Accordingly, persons receiving a copy of the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer or Application Form should not, in connection with the issue of the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, distribute or send the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer to any person outside India where to do so, would or might contravene local securities laws or regulations. If the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer or Application Form is received by any person in any Restricted Jurisdiction, or by their agent or nominee, they must not seek to subscribe to the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements referred to in the Letter of Offer and the Abridged Letter of Offer. Envelopes containing an Application Form should not be dispatched from a Restricted Jurisdiction and all the persons subscribing for the Rights Equity Shares must provide an Indian address.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the securities laws of any state of the United States of America and may not be offered or sold in the United States of America, its territories and possessions, any State of the United States, and the District of Columbia ("United States"), except in a transaction not subject to, or exempt from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The Rights Entitlements and Rights Equity Shares are being offered and sold only (a) to persons in the United States who are reasonably believed to be qualified institutional buyers as defined in Rule 144A under the Securities Act ("U.S. QIBs") pursuant to Section 4(a) (2) of the Securities Act and (b) to persons outside the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act ("Regulation S"). In addition, until the expiry of 40 days after the commencement of the issue, an offer or sale of Rights Entitlements or Rights Equity Shares in the United States by a dealer (whether or not it is participating in the issue) may violate the registration requirements of the Securities Act if such offer or sale is made otherwise than in accordance with an exemption from registration under the Securities Act.

The Application Form along with the Abridged Letter of Offer and the Rights Entitlement Letter has been sent through electronic dispatch to the shareholders who have registered their email ids and through registered post whose email ids are not registered.

**BANKER TO THE ISSUE AND REFUND BANK :** ICICI Bank Limited

**MONITORING AGENCY : NA**

**FOR RISK FACTORS AND OTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE LETTER OF OFFER AND ABRIDGED LETTER OF OFFER.**

**OTHER IMPORTANT LINKS AND HEADLINE:**

- Update of Indian address/ email address/ mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: [www.alankit.com](http://www.alankit.com)
- Update of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: [www.alankit.com](http://www.alankit.com)
- Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non-resident Eligible Equity Shareholders: [www.alankit.com](http://www.alankit.com).

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER	REGISTRAR TO THE ISSUE
 <b>URJA GLOBAL LIMITED</b> Registered Office: 487/63, 1 <sup>st</sup> Floor, National Market, Peeragarhi, New Delhi, Delhi, 110087, India Telephone: +91 11 45588274/75; Contact Person: Neha Shukla, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: cs@urjaglobal.in; Website: www.urjaglobal.in Corporate Identity Number: L67120DL1992PLC048983	 <b>ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED</b> Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi, 110055 Tel: +91 11-42541955 Email: urjarights@alankit.com Website: www.alankit.com Contact Person: Abhinav Kumar Agrawal SEBI Reg. No. INR000002532

Date : January 20, 2021  
Place : New Delhi  
For Urja Global Limited  
Sd/-  
Neha Shukla  
Company Secretary & Compliance Officer

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) and the Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and NSE at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 14 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Equity Shares in the United States.

**KEC**

**KEC International Limited**

Registered Office: RPG House, 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400030 • Tel.No.: +91-22-66670200 • Fax: +91-22-66670287  
CIN: L45200MH2005PLC152061 • Website: [www.kecprg.com](http://www.kecprg.com)

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of KEC International Limited (the Company) is scheduled to be held on Thursday, January 28, 2021, *inter alia*, to consider and approve Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company at [www.kecprg.com](http://www.kecprg.com) and on the website of the Stock Exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For KEC International Limited

Place: Mumbai  
Date: January 20, 2021  
Sd/-  
Amit Kumar Gupta  
Company Secretary & Compliance Officer

**G-RIDE**  
A JV of Govt. of Gujarat & Ministry of Railways  
CIN:U4999GJ2017SGC095040

Reg. office: 7th Floor, Block 06, Udyog Bhavan, Gandhinagar-382011.  
Ph: 079-23232728/29. Email id: [transactionadvisor@gride.org.in](mailto:transactionadvisor@gride.org.in)

**On Line E-Tender Notice**

The Gujarat Rail Infrastructure Development Corporation Limited (G-RIDE), Gandhinagar invites online tender through EPC mode in Single Stage Two Packet System from reputed Contractors for construction of "Rail Connectivity to Old Bedi Port from Windmill Station in Jamnagar District, Total Length of 2.33 KM with 25 KV AC Electrification in Rajkot Division of Western Railway".

Tender No.	Estimated Cost (in Rs.)	Last Date of Submission of Online Tender
GRIDE / EPC / 2020-21 / 003	50.10 Cr	01 <sup>st</sup> March 2021

**Important notes:**  
Bid documents can be downloaded from the website [www.ppruce.com](http://www.ppruce.com) (Tender ID : 446217). Pre-Bid meeting shall be held on 4<sup>th</sup> February 2021 at 12.00 hrs in G-RIDE office. Interested Bidder are requested to submit the bid through e-tender process.

Sd/-  
Director (Project & Planning)

**APOLLO SINDOORI HOTELS LIMITED**

CIN: L72300TN1998PLC041360  
Regd. Office: No. 435, Hussain Mansion, Greams Road, Thousand Lights, Chennai - 600006. Ph: 044 - 49045016  
Website: [www.apollosindoori.com](http://www.apollosindoori.com); E-Mail: [info@apollosindoori.com](mailto:info@apollosindoori.com)

**NOTICE**

We wish to inform that seven years' dividend and shares related to the period 2012-13 has been transferred to IEPF account. Any person whose shares and unclaimed dividends have been transferred to the fund, may claim the shares/ dividends from the IEPF authority by making online application in form IEPF 5 for which details are available at [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) and on the website of the company [www.apollosindoori.com](http://www.apollosindoori.com).

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the rules, they may contact the company's registrar & share transfer agents at M/s.Cameo Corporate Services Limited "Subramanian Building" V Floor, No.1, Club House Road, Chennai - 600002 and website of the company [www.cameoindia.com](http://www.cameoindia.com).

The above notice is available on Company's Website [www.apollosindoori.com](http://www.apollosindoori.com).

Dated: 05.01.2021  
Place: Chennai  
For Apollo Sindoori Hotels Limited  
Rupali Sharma  
Company Secretary

**Coforge Coforge Limited**  
(erstwhile NIIT Technologies Limited)

CIN: L72100DL1992PLC048753  
Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Gurgaon, Gurugravida Marg, Kalkaji, New Delhi-110019  
Ph: 91 (11) 41029297 Fax: 91 (11) 26414900  
Email: [investors@coforge.tech](mailto:investors@coforge.tech)  
Website: <https://www.coforgetech.com>

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to Clause 47(1)(a) of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, January 28,

